



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1979/ज्येष्ठ 30, 1901

No. 195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1979/JYAISTHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1979

सां०का०नि० 386(अ)—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) और भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय पुलिस (वेतन) नियम, 1954 में [और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की धनुषूची 3 में, शीर्षक "ग—बें पंच जिनका वेतनकाल वेतनमान से अधिक है या जिनके साथ केन्द्रीय सरकार के अधीन, जब वह सेवा के सबस्यों द्वारा धारित किये गये हों, काल वेतनमान में वेतन के प्रतिरिक्त विशेष वेतन है" के अधीन,—

(1) "खुफिया व्यूरो" शीर्षक के नीचे, स्तम्भ 2, 3 और 4 की विद्यमान प्रविष्टियों :—

"केन्द्रीय खुफिया अधिकारी ज्येष्ठ वेतनमान 200 रु०" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"केन्द्रीय खुफिया अधिकारी

ज्येष्ठ वेतनमान या
अधिन श्रेणी

300 रु० इस शर्त के
अधीन रहते हुए
कि वेतन और विशेष
वेतन का जोड़
2000 रु० से अधिक
नहीं होगा।"

(2) "सुरवार वल्लभ पटेल पुलिस अकादमी" शीर्षक के नीचे, स्तम्भ 2, 3 और 4 की विद्यमान प्रविष्टियों :—

"उप निवेशक 1600-100-1800 रु० 100 रु० 2-7-78 से

सहायक निवेशक ज्येष्ठ वेतनमान 200 रु०

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

उप निवेशक 2000-125/2-2250 200 रु०

सहायक निवेशक ज्येष्ठ वेतनमान 300 रु०

(इस शर्त के अधीन
रहते हुए कि वेतन
और विशेष
वेतन का जोड़
2000 रु० से अधिक
नहीं होगा।)"

[संख्या 11030/2/79-आ०भा०से०(II)]

बी० आर० श्रीनिवासन, ई०ए० अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, 20th June, 1979

G. S. R. 386 (E) In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

(i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth (Amendment) Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "C—Posts carrying pay above the time scale or special pay in addition to pay in the time scale under

the Central Government when held by members of the Service"—

(i) Under heading "Intelligence Bureau", for the existing entries in Columns, 2, 3 and 4 :—

"Central Intelligence Officers	Senior Scale	Rs. 200"
the following entries shall be substituted, namely :—		
"Central Intelligence Officers	Senior Scale	Rs. 300 (sub-
	or Selection	ject to the
	Grade	condition that
		pay plus Spl.
		Pay does not
		exceed Rs.
		2,000).

(ii) Under heading "S. V. P. National Police Academy", for the existing entries in Columns 2, 3 and 4 :—

"Deputy Directors	1600-100-1800	100 w.e.f.	2-7-1968
Asstt. Directors	Senior Scale	200"	

the following entries shall be substituted, namely :—

"Deputy Directors	2000-125-2250	Rs. 200/-
-------------------	---------------	-----------

2

Assistant Directors	Senior Scale	Rs. 300/-"
---------------------	--------------	------------

[No. 11030/2/79-AJS(II)]

V. R. SRINIVASAN, Desk Officer.